



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 424] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1977 प्राविन 8, 1899

No. 424] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1977/ASVINA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate pagings is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th September 1977

S.O. 697(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby appoints the second day of October, 1977 as the date on which the said Act shall come into force in respect of employments in Transport, Storage, Warehousing and Communications specified in the Schedule annexed hereto.

THE SCHEDULE

Transport, Storage and Communications

- 1 Services incidental to Transport such as packing, crating, travel agency
Storage and Warehousing
- 2 Warehousing
- 3 Cold storage
- 4 Storage and Warehousing not elsewhere classified
Communications
- 5 Postal, telegraphic, wireless and signal communications
- 6 Telephone communications
- 7 Communications not elsewhere classified.

[No S-42013/1/77-WC]

भ्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 मितम्बर, 1977

क्र० आ० 697(अ).—केन्द्रीय सरकार समान प्रारिथमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अक्तूबर, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम इससे उपावृत्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिवहन, भण्डार, संग्रहागार तथा संचार के नियोजनों के बारे में लागू होगा।

अनुसूची

परिवहन, भण्डार और संचार

1. परिवहन की अनुषंगी सेवाएं, जैसे पैकिंग, क्रेटिंग, गाला अभिकरण।

भण्डार और संग्रहागार

2. संग्रहागार।
3. शीतागार।
4. ऐसे भण्डार और संग्रहागार जो अन्यत्र वर्गीकृत न किए गए हों।

संचार

5. डाक, तार, बेतार और सिग्नल संचार।
6. दूरभाष संचार।
7. ऐसे संचार जो अन्यत्र वर्गीकृत न किए गए हों।

[म० एस-42013 1/77-डब्ल्यू०सी]

SO. 698(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby specifies the employments in Transport, Storage, Warehousing and Communications mentioned in the Schedule annexed hereto, for the purpose of constitution of one or more Advisory Committees by the appropriate Government to advise with regard to the extent to which women may be employed in such employments.

THE SCHEDULE

Transport, Storage and Communications

- 1 Services incidental to Transport, such as packing, crating, travel agency.

Storage and Warehousing

- 2 Warehousing
- 3 Cold storage
- 4 Storage and Warehousing not elsewhere classified.

Communications

- 5 Postal, telegraphic, wireless and signal communications.
- 6 Telephone communications
- 7 Communications not elsewhere classified

[No S-42013/1/77-WC]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy,

का० आ० 698(घ).—केन्द्रीय सरकार समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिवहन, भण्डार, संग्रहागार तथा संचार के नियोजनों को समुचित सरकार द्वारा एक या उससे अधिक सलाहकार समितियाँ गठित करने के लिए निविष्ट करती है, जो इसे इस सम्बन्ध में सलाह देगी कि ऐसे नियोजनों में किस सीमा तक महिलाओं को नियोजित किया जाए।

अनुसूची

परिवहन, भण्डार और संचार

1. परिवहन की अनुषंगी सेवाएं, जैसे पैकिंग, क्रैनिंग, यात्रा अभिकरण।

भण्डार और संग्रहागार

2. संग्रहागार।
3. शीतागार।
4. ऐसे भण्डार और संग्रहागार जो अन्यत्र वर्गीकृत न किए गए हों।

संचार

5. डाक, तार, बेलतार और सिग्नल संचार।
6. दूरभाष संचार
7. ऐसे संचार जो अन्यत्र वर्गीकृत न किए गए हों।

[सं० एस० - 42013/1/77-इन्फू०सी०]

डी० बंशोपाध्याय, संयुक्त सचिव।

